

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 26.07.2022

चोरी के आरोप में फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार, सामान बरामद

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 535/2022 धारा 379 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि से सम्बन्धित चोरी की दो अदद मोबाईल फोन व एक अदद पीली धातु की अंगूठी के अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र गुड्डु प्रसाद निवासी गरिमा हास्पिटल के सामने थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर उम्र करीब 19 वर्ष के कब्जे से बरामद करते हुए आज दिनांक 26.07.2022 समय करीब 08.10 बजे नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

अपराध/पूछताछ विवरण:- वादी मुकदमा प्रदीप कुमार प्रजापति पुत्र रामसरन प्रजापति निवासी कुमाधाप टोला कोहरवती थाना पनियरा जनपद महाराजगंज द्वारा दिनांक 24.07.2022 को मोहदीपुर गरिमा हास्पिटल में अपनी भाभी की डिलेबरी करवाने के लिए आया था। मोहदीपुर गरिमा हास्पिटल से वादी का बैग जिसमें मोबाइल फोन, एक अंगूठी, दवा, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स व कुछ आवश्यक सामान/कपड़े थे जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 25.07.22 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त पंकज कुमार द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह हास्पिटल, माल, स्टेशन आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों से लोगों का सामान चोरी करता हूँ। उक्त चोरी गये माल को बरामद कर अभियुक्त पंकज कुमार को जेल भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास:-

➤ पंकज कुमार पुत्र गुड्डु प्रसाद निवासी गरिमा हास्पिटल के सामने थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

- मु0अ0सं0- 535/22 धारा 379/411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी का विवरण- एक बैग में दो मोबाईल फोन, एक अदद पीली धातु की अंगूठी व अन्य सामान।

गिरफ्तारी का स्थान /समय: -

स्थान- नहर पुलिया के पास से, **दिनांक** 26.07.2022 **समय** करीब 08.10 बजे

गिरफ्तारी की टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अरुण कुमार पाण्डेय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 टीपु सुल्तान थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 आशीष चौधरी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर